



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 पौष 1941 (श10)

(सं0 पटना 1364) पटना, शुक्रवार, 27 दिसम्बर 2019

सं०-एम-4-12/2015-10358/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

27 दिसम्बर 2019

विषय :-गृह विभाग के विशेष शाखा अंतर्गत Apex Training Centre के नियंत्री पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन के संबंध में ।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-6867/वि०, दिनांक-21.08.2019 द्वारा बिहार पुलिस अकादमी के निदेशक को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है । गृह (आरक्षी) विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के समीक्षोपरांत गृह विभाग के विशेष शाखा अंतर्गत Apex Training Centre के नियंत्री पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक को निम्न रूपेण शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है :-

गृह विभाग के विशेष शाखा अंतर्गत Apex Training Centre के प्रथम श्रेणी के संसाधन व्यक्ति के लिए ₹2000/- (दो हजार रुपये) प्रति घंटा, द्वितीय श्रेणी के संसाधन व्यक्ति के लिए ₹1500/- (एक हजार पांच सौ रुपये) प्रति घंटा एवं तृतीय श्रेणी के संसाधन व्यक्ति के लिए ₹1200/- (एक हजार दो सौ रुपये) प्रति घंटा मानदेय तथा स्थानीय संसाधन व्यक्तियों को छोड़ कर बाहर से आने वाले संसाधन व्यक्तियों के लिए ₹800/- (आठ सौ रुपये) प्रतिदिन वाहन किराया भत्ता स्वीकृत करने की शक्ति Apex Training Centre के नियंत्री पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक को प्रदान की जाती है । साथ ही संसाधन व्यक्तियों के श्रेणीकरण की शक्ति Apex Training Centre के नियंत्री पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक (IPS) को प्रत्यायोजित की जाती है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश झा,
अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1364-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>